

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड

पाठ्यक्रम और अध्यायवार अंकों का विभाजन (2024-25)

कक्षा: बारहवीं

विषय: लेखांकन

कोड: 903

सामान्य निर्देश:

1. एक वार्षिक परीक्षा होगी जिसमें भाग ए सभी के लिए अनिवार्य होगा और भाग बी में वित्तीय विवरण के विश्लेषण और कम्प्यूटरीकृत लेखांकन के बीच विकल्प होगा।
2. वार्षिक परीक्षा 60 अंकों की होगी, प्रायोगिक परीक्षा 20 अंकों की होगी और 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन के लिए होगा।
3. प्रायोगिक परीक्षा के लिए:
 - i. प्रैक्टिकल फाइल 04 अंक।
 - ii. प्रोजेक्ट 12 अंकों पर आधारित लिखित परीक्षा
 - iii. मौखिक परीक्षा 04 अंकों की
4. आंतरिक मूल्यांकन के लिए:

आवधिक मूल्यांकन होगा जिसमें शामिल होंगे:

 - i. 4 अंकों के लिए- दो SAT परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और अंतिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 04 अंकों का भारांक होगा।
 - ii. 2 अंकों के लिए - एक अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और अंतिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 02 अंकों का भारांक होगा।
 - iii. 2 अंकों के लिए - एक प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी और अंतिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 02 अंकों का भारांक होगा।
 - iv. 2 अंकों के लिए- विषय शिक्षक मूल्यांकन करेंगे और सीआरपी (कक्षा भागीदारी) के लिए अधिकतम 02 अंक देंगे।
 - v. 5 अंकों के लिए - छात्रों द्वारा किया जाने वाला एक प्रोजेक्ट कार्य और अंतिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 05 अंकों का भारांक होगा।

vi. 5 अंक के लिए- छात्र की उपस्थिति पर 05 अंक दिए जाएंगे:

75% से 80% तक - 01 अंक

80% से अधिक और 85% तक - 02 अंक

85% से अधिक और 90% तक - 03 अंक

90% से अधिक और 95% तक - 04 अंक

95% से अधिक - 05 अंक



पाठ्यक्रम संरचना (2024-25)

कक्षा: बारहवीं

विषय: लेखांकन

कोड: 903

क्रम संख्या	इकाई	अंक
1.	भाग अ - साझेदारी और कंपनी खातों के लिए लेखांकन इकाई 1. साझेदारी के लिए लेखांकन - आधारभूत अवधारणाएँ इकाई 2. साझेदारी फर्म का पुनर्गठन-एक साझेदार का प्रवेश इकाई 3. साझेदारी फर्म का पुनर्गठन-साझेदार की सेवानिवृत्ति/मृत्यु इकाई 4. साझेदारी फर्म का विघटन	29
2.	कंपनी खातों के लिए लेखांकन इकाई 5. अंश पूंजी के लिए लेखांकन इकाई 6. ऋण-पत्र निर्गमन	16
भाग ब - वित्तीय विवरण का विश्लेषण		
3.	इकाई 7. कंपनी के वित्तीय विवरण	04
4.	इकाई 8. लेखांकन अनुपात इकाई 9. नकदी प्रवाह विवरण	11
अथवा भाग ब - कम्प्यूटरीकृत लेखांकन		
5.	इकाई 7. कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का अवलोकन इकाई 8. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लेखांकन अनुप्रयोग इकाई 9. कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का उपयोग करना	15
	कुल	60
	प्रैक्टिकल परीक्षा	20
	आंतरिक मूल्यांकन	20
	कुल योग	100

इकाइयां	विषय एवं उप-विषय
साझेदारी के लिए लेखांकन - आधारभूत अवधारणाएँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ साझेदारी: विशेषताएं, साझेदारी संलेख ➤ साझेदारी विलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान। ➤ स्थिर बनाम उतार-चढ़ाव वाले पूंजी खाते। ➤ लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार करना- साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन, लाभ की गारंटी। ➤ पिछले समायोजन (पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन और लाभ साझाकरण अनुपात से संबंधित)।
साझेदारी फर्म का पुनर्गठन- एक साझेदार का प्रवेश	<p>लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ। ➤ त्याग अनुपात, लाभ अनुपात, नया अनुपात ➤ संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन। ➤ भंडार, संचित लाभ और हानि का उपचार। ➤ पुनर्मूल्यांकन खाता और बैलेंस शीट तैयार करना। ➤ साख [अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, गणना के लिए मूल्यांकन विधियों की आवश्यकता (औसत लाभ विधि, सुपर लाभ विधि और पूंजीकरण विधि), भागीदारों की पूंजी/चालू खाते के माध्यम से समायोजित।] <p>नये साझेदार का प्रवेश :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन पर साझेदार के प्रवेश का प्रभाव। ➤ साख का उपचार (एएस 26 के अनुसार)। ➤ भंडार, संचित लाभ और हानि का समायोजन। ➤ संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूंजी खातों का समायोजन और पूंजी, चालू खाता और बैलेंस शीट तैयार करना।
साझेदारी फर्म का पुनर्गठन- साझेदार की सेवानिवृत्ति/मृत्यु	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन पर साझेदार की सेवानिवृत्ति/मृत्यु का प्रभाव। ➤ साख का उपचार (एएस 26 के अनुसार)। ➤ भंडार, संचित लाभ और हानि का समायोजन। ➤ संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन ➤ पूंजी खातों का समायोजन और पूंजी, चालू खाता और बैलेंस शीट तैयार करना। ➤ मृत साझेदार की मृत्यु की तारीख तक लाभ के हिस्से की गणना। मृत साझेदार का पूंजी खाता और उसके निष्पादक का खाता तैयार करना.
साझेदारी फर्म का विघटन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ साझेदारी एवं साझेदारी फर्म के विघटन का अर्थ। ➤ किसी फर्म के विघटन के प्रकार। ➤ खातों का निपटान - वसूली खाता, और अन्य संबंधित खाते तैयार करना: भागीदारों के पूंजी खाते और नकद/बैंक खाता।
अंश पूंजी के लिए लेखांकन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कंपनियों की विशेषताएं एवं प्रकार। ➤ अंश और अंश पूंजी: प्रकृति और प्रकार। ➤ अंश पूंजी के लिए लेखांकन: सामान्य और अधिमान अंश का मुद्दा और आवंटन। ➤ अंश की सार्वजनिक सदस्यता – अंश की अधिक सदस्यता और कम सदस्यता; सममूल्य और अधिमूल्य पर जारी, अग्रिम कॉल और बकाया (ब्याज को छोड़कर)। ➤ नकदी के अलावा अन्य विचार के लिए अंशजारी करना। ➤ निजी स्थानन और कर्मचारी की अवधारणा ➤ भण्डार विकल्प योजना (ईएसओपी), स्वेट इक्विटी।

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अंश की जब्ती और पुनः जारी करने का लेखांकन उपचार। ➤ किसी संगठन की बैलेंस शीट में अंश पूंजी का खुलासा।
ऋण-पत्रों का निर्गमन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण-पत्र: अर्थ, प्रकार, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और छूट पर ऋण-पत्र जारी करना। ➤ नकदी के अलावा अन्य विचार के लिए ऋण-पत्र जारी करना। ➤ मोचन की शर्तों के साथ ऋण-पत्र जारी करना। ➤ संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में ऋण-पत्र जारी करना। ➤ ऋण-पत्र पर ब्याज। ➤ ऋण-पत्र जारी करने पर छूट/हानि को बट्टे खाते में डालना।
कंपनी के वित्तीय विवरण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वित्तीय विवरण का अर्थ, प्रकृति, उपयोग और महत्वा। ➤ वित्तीय विवरण की सीमाएँ। ➤ प्रमुख शीर्षकों और उपशीर्षकों के साथ निर्धारित प्रपत्र में लाभ और हानि का विवरण और बैलेंस शीट (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार)। ➤ वित्तीय विवरण के प्रकार।
लेखांकन अनुपात	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लेखांकन अनुपात का अर्थ, उद्देश्य, लाभ और सीमाएँ। ➤ वर्गीकरण एवं संगणना : <ul style="list-style-type: none"> • तरलता अनुपात • शोधन क्षमता अनुपात • गतिविधि अनुपात • लाभप्रदता अनुपात.

<p>नकदी प्रवाह विवरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नकदी प्रवाह विवरण का अर्थ, उद्देश्य और लाभ। ➤ नकद और नकद समकक्ष। ➤ नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए गतिविधियों का वर्गीकरण (एएस 3 (संशोधित) के अनुसार (केवल अप्रत्यक्ष विधि)। ➤ परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह का पता लगाना। ➤ निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह का पता लगाना। ➤ नकदी प्रवाह विवरण तैयार करना।
-------------------------------------	--

अथवा

<p>भाग बी - कम्प्यूटरीकृत लेखांकन</p>	
<p>कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का अवलोकन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परिचय: लेखांकन में अनुप्रयोग. ➤ कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषताएं। ➤ CAS की संरचना. ➤ सॉफ्टवेयर पैकेज: जेनेरिक; विशिष्ट; दर्जीed
<p>इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लेखांकन अनुप्रयोग</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की अवधारणा। ➤ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ। ➤ लेखांकन जानकारी उत्पन्न करने में अनुप्रयोग - बैंक समाधान विवरण; संपत्ति लेखांकन; ऋण अनुसूची का ऋण पुनर्भुगतान, अनुपात विश्लेषण ➤ डेटा प्रतिनिधित्व- ग्राफ़, चार्ट और आरेख
<p>कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का उपयोग करना.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CAS की स्थापना के चरण, खाता प्रमुखों का संहिताकरण और पदानुक्रम, खातों का निर्माण। ➤ डेटा: प्रविष्टि, सत्यापन और सत्यापन। ➤ प्रविष्टियों को समायोजित करना, बैलेंस शीट तैयार करना, समापन प्रविष्टियों और प्रारंभिक प्रविष्टियों के साथ लाभ

	और हानि खाता। ➤ सिस्टम की आवश्यकता एवं सुरक्षा विशेषताएँ.
--	--

भाग सी - परियोजना कार्य

परियोजना कार्य दिशानिर्देश:-

विद्यार्थी पूरे शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही प्रोजेक्ट तैयार करेंगे।

परियोजना कार्य के लिए विस्तृत दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:-

छात्रों को केवल एक विशिष्ट प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता होगी जिसमें उन्हें कंपनी प्रोफ़ाइल, वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन और विशिष्ट रिपोर्ट विश्लेषण को शामिल करना करना होगा।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

1. छात्र वित्तीय विवरण विश्लेषण के अर्थ, उद्देश्यों और सीमाओं को बताने में सक्षम हैं।
2. अनुपात और नकदी प्रवाह विवरण जैसे 'वित्तीय विवरण विश्लेषण' के विभिन्न उपकरणों के उचित उपयोग का अध्ययन करें।
3. विभिन्न प्रकार के अनुपातों और उनके उपयोगों की गणना करने में सक्षम।
4. लेखांकन अनुपात के अर्थ, उद्देश्य, लाभ और सीमा को समझें।

विवरण	अधिकतम अंक
प्रोजेक्ट पर आधारित लिखित परीक्षा	12
प्रोजेक्ट फाइल	04
मौखिक परीक्षा (अनुपात विश्लेषण)	04

टिप्पणी:

लिखित परीक्षा के लिए आवंटित कुल समय एक घंटा है।

प्रश्न पत्र में दो प्रश्न प्रत्येक छह अंक के हैं, एक लेखांकन अनुपात से और दूसरा नकदी प्रवाह विवरण से। सभी व्यावहारिक/प्रोजेक्ट कार्य केवल विषय विशेषज्ञ आंतरिक परीक्षक तक सीमित हैं। जिसमें लिखित परीक्षा भी शामिल है।

निर्धारित पुस्तकें: लेखाशास्त्र - I व लेखाशास्त्र -II कक्षा XII BSEH प्रकाशन © NCERT

लेखाशास्त्र - कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली कक्षा XII BSEH NCERT

मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना (2024-25)

कक्षा: बारहवीं

विषय: लेखांकन

कोड: 903

माह	विषय सामग्री	शिक्षण अवधि	दोहराई अवधि
अप्रैल	भाग अ साझेदारी फर्मों और कंपनियों के लिए लेखांकन। अध्याय 1- साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन – आधारभूत अवधारणाएँ	16	03
मई	अध्याय 2 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन - मौजूदा भागीदारों के बीच लाभ साझाकरण अनुपात में बदलाव - साझेदार का प्रवेश	10 14	03 03
जून	व्यापक समस्याओं पर प्रोजेक्ट तैयार करें		
जुलाई	अध्याय 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन -सेवानिवृत्ति/मृत्यु	20	04
अगस्त	अध्याय 4 - साझेदारी फर्म का विघटन अध्याय 5 - शेयर पूंजी के लिए लेखांकन	22 12	04 03
सितंबर	अध्याय 5 - शेयर पूंजी के लिए लेखांकन (जारी) अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दोहराई अर्धवार्षिक परीक्षा	12	03

अक्टूबर	अध्याय 6 - ऋण-पत्रों का निर्गमन	20	06
नवंबर	भाग ब वित्तीय विवरण का विश्लेषण	06	02
	अध्याय 7 - कंपनी के वित्तीय विवरण		
	भाग ब - कम्प्यूटरीकृत लेखांकन		
	अध्याय- कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का अवलोकन	06	02
	अध्याय- इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लेखांकन अनुप्रयोग	10	04
दिसंबर	अध्याय 8- लेखांकन अनुपात।	10	02
	अध्याय 9- नकदी प्रवाह विवरण	18	04
	अथवा		
	अध्याय - कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का उपयोग करना	18	04
जनवरी	दोहराई		20
फरवरी	दोहराई		20
मार्च	वार्षिक परीक्षा		

नोट: विषय शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों को शब्दावली या अवधारणा की स्पष्टता के लिए अध्यायों में प्रयुक्त शब्दावली/परिभाषा शब्दों की नोटबुक तैयार करने का निर्देश दें।

प्रश्न पत्र प्रारूप (2024-25)

कक्षा: बारहवीं

विषय: लेखांकन

कोड: 903

समय: 3 घंटे

दक्षताएं	अंक	प्रतिशतता
ज्ञान	24	40%
बोध	18	30%
अनुप्रयोग	12	20%
कौशल	6	10%
कुल	60	100%

प्रश्न का प्रकार	अंक	संख्या	विवरण	कुल अंक
वस्तुनिष्ठ प्रश्न	1	15	6 बहु-विकल्पीय प्रश्न, 3 रिक्त स्थान भरो प्रश्न, 3 एक शब्दीय उत्तर के प्रश्न, 3 अभिकथन-कारण प्रश्न	15
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न	2	6	किन्ही 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया जाएगा	12
लघुत्तरात्मक प्रश्न	3	6	किन्ही 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया जाएगा	18
दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न	5	3	सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया जाएगा	15
कुल		30		60

BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA

Syllabus and Chapter wise division of Marks (2024-25)

Class: XII

Subject: Accountancy

Code: 903

General Instructions:

1. There will be an Annual Examination consisting of Part A compulsory for all and Part B will be having choice between Analysis of Financial Statement and Computerized Accounting.
2. The Annual Examination will be of 60 marks, Practical Examination will be of 20 marks and 20 marks weightage shall be for Internal Assessment.
3. For Practical Examination:
 - i) Practical File 04 marks.
 - ii) Written test based on project 12 marks.
 - iii) Viva-voce of 04 marks.
4. For Internal Assessment:

There will be Periodic Assessment that would include:

 - i) For 4 marks- Two SAT exams will be conducted and will have a weightage of 04 marks towards the final Internal Assessment.
 - ii) For 2 marks- One half yearly exam will be conducted and will have a weightage of 02 marks towards the final Internal Assessment.
 - iii) For 2 marks- One Pre-Board exam will be conducted and will have a weightage of 02 marks towards the final Internal Assessment.
 - iv) For 2 marks- Subject teacher will assess and give maximum 02 marks for CRP (Classroom participation).
 - v) For 5 marks- A project work to be done by students and will have a weightage of 05 marks towards the final Internal

Assessment.

vi) For 5 marks- Attendance of student will be awarded 05 marks as:

75% to 80% - 01 marks

Above 80% to 85% - 02 marks

Above 85% to 90% - 03 marks

Above 90% to 95% - 04 marks

Above 95% - 05 Marks



Course Structure (2024-25)

Class: XII

Subject: Accountancy

Code: 903

Sr No.	Units	Marks	
PART A – Accounting for Partnership & Company Accounts			
1	ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP ACCOUNTS Unit 1 - Accounting for Partnership Firm – Basic Concepts Unit 2 - Reconstitution of a Partnership Firm- Change in the profit sharing ratio Admission of a Partner Unit 3 - Reconstitution Of a Partnership Firm- Retirement/Death of a Partner Unit 4 - Dissolution of Partnership Firm	29	
	2	ACCOUNTING FOR COMPANY ACCOUNTS Unit 5 - Accounting for Share Capital Unit 6 - Issue of Debentures	16
		PART B – Analysis of Financial Statements	
	3	Unit 7 - Financial Statements of a Company	04
4	Unit 8 - Accounting Ratios Unit 9 - Cash Flow Statement	11	
OR			
PART B – Computerised Accounting			
	Unit 7. Overview of Computerised Accounting System Unit 8. Accounting Application of Electronic Spreadsheet Unit 9. Using Computerised Accounting System	15	
Total		60	
Practical Examination		20	
Internal Assessment		20	
Grand Total		100	

UNITS	TOPICS & SUB-TOPICS
Unit - 1 Accounting For Partnership – Basic Concepts	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partnership: features, Partnership Deed. ➤ Provisions of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed. ➤ Fixed v/s fluctuating capital accounts. Preparation of Profit and Loss Appropriation account-division of profit among partners, guarantee of profits. ➤ Past adjustments (relating to interest on capital, interest on drawing, salary and profit sharing ratio).
Unit - 2 Reconstitution Of Partnership Firm- Admission Of A Partner	<p>Change in the Profit Sharing Ratio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meaning of reconstitution of partnership firm. ➤ Sacrificing ratio, gaining ratio, new ratio ➤ Accounting for revaluation of assets and reassessment of liabilities. ➤ Treatment of reserves, accumulated profits and losses. ➤ Preparation of revaluation account and balance sheet. ➤ Goodwill [meaning, factors affecting, need for valuation methods for calculation (Average profit method, Super profit method and Capitalization method), adjusted through partners' capital/ current account.] <p>Admission of new partner:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Effect of admission of a partner on profit sharing ratio. ➤ Treatment of Goodwill (as per AS 26). ➤ Adjustments of reserves, accumulated profits and losses. ➤ Revaluation of assets and Reassessment of liabilities ➤ Adjustment of capital accounts and preparation of capital, current account and balance sheet.
Unit – 3 Reconstitution Of Partnership Firm-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Effect of retirement /death of a partner on change in the profit sharing ratio. ➤ Treatment of Goodwill (as per AS 26).

<p>Retirement / Death Of A Partner</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adjustments of reserves, accumulated profits and losses. ➤ Revaluation of assets and Reassessment of liabilities ➤ Adjustment of capital accounts and preparation of capital, current account and balance sheet. ➤ Calculation of deceased partner's share of profit till the date of death. Preparation of deceased partner's capital account and his executor's account.
<p>Unit - 4 Dissolution Of Partnership Firm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meaning of dissolution of partnership and partnership firm. ➤ Difference between dissolution of partnership and partnership firm. ➤ Types of dissolution of a firm. ➤ Settlement of accounts - preparation of realization account, and other related accounts: capital accounts of partners and cash/bank a/c.
<p>Unit - 5 Accounting For Share Capital</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Features and types of companies. ➤ Share and share capital: nature and types. ➤ Accounting for share capital: issue and allotment of equity and preferences shares. ➤ Public subscription of shares – over subscription and under subscription of shares; issued at par and at premium, calls in advance and arrears (excluding interest). ➤ Issue of shares for consideration other than cash. ➤ Concept of Private Placement and Employee Stock Option Plan (ESOP), Sweat Equity shares. ➤ Accounting treatment of forfeiture and reissue of shares. ➤ Disclosure of share capital in the Balance Sheet of a company.

<p>Unit - 6 Issue of Debentures</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Debentures: Meaning, types, Issue of debentures at par, at a premium and at a discount. ➤ Issue of debentures for consideration other than cash. ➤ Issue of debentures with terms of redemption. ➤ Issue of debentures as collateral security. ➤ Interest on debentures. ➤ Writing off discount / loss on issue of debentures.
<p>Unit - 7 Financial Statements of acompany</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meaning, Nature, Uses and importance of financial Statement. ➤ Limitations of Financial Statements. ➤ Statement of Profit and Loss and Balance Sheet in prescribed form with major headings and sub headings (as per Schedule III to the Companies Act, 2013) ➤ Types of Financial statements
<p>Unit – 8 Analysis of Financial Statements</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meaning, significance and objectives of Analysis of Financial Statements. ➤ Tools of Analysis of Financial Statements. ➤ Comparative Statements. ➤ Common Size Statements. ➤ Limitations of Financial Statements.
<p>Unit - 9 Accounting Ratios</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meaning, Objectives, Advantages and Limitations of Accounting Ratio. ➤ Classification and Computation : <ul style="list-style-type: none"> • Liquidity Ratios • Solvency Ratios • Activity Ratios • Profitability Ratios
<p>Unit – 10 Cash Flow Statement</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meaning, Objectives and Benefits of Cash Flow Statement. ➤ Cash and Cash Equivalents. ➤ Classification of activities for Preparation of Cash Flow statement (as per AS 3 (Revised) (Indirect Method only). ➤ Ascertaining Cash Flow from Operating Activities. ➤ Ascertaining of Cash Flow from Investing

	<p>and Financing Activities.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Preparation of Cash Flow Statement with adjustments.
--	---

OR

PART B – COMPUTERISED ACCOUNTING	
OVERVIEW OF COMPUTERISED ACCOUNTING SYSTEM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Introduction: Application in Accounting. ➤ Features of Computerised Accounting System. ➤ Structure of CAS. ➤ Software Packages: Generic; Specific; Tailored
ACCOUNTING APPLICATION OF ELECTRONIC SPREADSHEET	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Concept of electronic spreadsheet. ➤ Features offered by electronic spreadsheet. ➤ Application in generating accounting information - bank reconciliation statement; asset accounting; loan repayment of loan schedule, ratio analysis ➤ Data representation- graphs, charts and diagrams
USING COMPUTERIZED ACCOUNTING SYSTEM.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Steps in installation of CAS, codification and Hierarchy of account heads, creation of accounts. ➤ Data: Entry, validation and verification. ➤ Adjusting entries, preparation of balance sheet, profit and loss account with closing entries and opening entries. ➤ Need and security features of the system.

PART C – PROJECT WORK

Project Work Guidelines

Students would prepare only ONE project in the entire academic session.

Detailed guidelines for project work are as follows:-

Students need to create one specific project only in which they would be required to cover the company profile, assessment of financial statements, and specific report analysis.

The main objective of preparing the project report is for the following reason:

1. Students are able to state the meaning, objectives, and limitations of financial statement analysis.
2. Study the proper use of different tools of 'financial statements analyses' like Ratios and Cash flow statement.
3. Capable to calculate different types of ratio's and there uses.
4. Understand the Meaning, objective, advantage, and limitation of Accounting Ratios.

Particulars	Maximum marks
Written Test Based on Project	12
Project file	04
Viva (Ratio Analysis)	04

NOTE:

Total time Allotted for written test is one hour.

Question paper containing two question six marks each, one from accounting ratio and other from cash flow statement.

All the practical/project work limited to subject expert internal examiner only. Including written test.

PRESCRIBED BOOKS:

Accountancy -I Class XII BSEH Publication © NCERT

Accountancy -II Class XII BSEH Publication © NCERT

Accountancy – Computerized Accounting System Class XII NCERT Publication

Month wise Syllabus Teaching Plan (2024-25)

Class: XII

Subject: Accountancy


Code: 903

Month	Subject- content	Teaching Periods	Revision Periods
April	<u>PART A</u> ACCOUNTING FOR PARTNERSHIP FIRMS AND COMPANIES. Chapter 1- Accounting for partnership firms – Basic Concepts	16	03
May	Chapter 2 Reconstitution of Partnership Firm - Change In Profit Sharing Ratio amongst the existing Partners - Admission of a Partner	10 14	03 03
June	Prepare project on Comprehensive Problems		
July	Chapter 3 Reconstitution of a partnership Firm -Retirement /Death of a Partner.	20	04
August	Chapter 4 – Dissolution of Partnership Firm Chapter 5 Accounting for Share Capital	22 12	04 03

September	Chapter 5 – Accounting for share Capital (Cont.) Revision for Half-Yearly Exam Half-Yearly Exam	12	03
October	Chapter 6 – Issue of Debentures.	20	06
November	<u>PART B</u> ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS Chapter 7 – Financial statements of Company OR <u>PART B- COMPUTISED ACCOUNTING</u> Chapter-Overview of computerised accounting system Chapter- Accounting Application of Electronic Spreadsheet	06 06 10	02 02 02
December	Chapter 9– Accounting Ratio. Chapter 10– Cash Flow Statement OR Using computerized accounting system	10 18 18	02 04 04

January	Revision		20
February	Revision		20
March	Annual Examination		

Note: Subject teachers are advised to direct the students to prepare notebook of the Terminology/Definitional Words used in the chapters for enhancement of vocabulary or clarity of the concept.



Question Paper Design (2024-25)

Class: XII

Subject: Accountancy

Code: 903

Time: 3 Hours

Competencies	Marks	Percentage
Knowledge	24	40%
Understanding	18	30%
Application	12	20%
Skill	6	10%
Total	60	100%

Type of Question	Marks	Number	Description	Total Marks
Objective Questions	1	15	6 Multiple Choice Questions, 3 Fill in the Blanks Questions, 3 One Word Answer Type Questions, 3 Assertion-Reason Questions	15
Very Short Answer Type Question	2	6	Internal choice will be given in any 2 questions	12
Short Answer Type Question	3	6	Internal choice will be given in any 2 questions	18
Essay Answer Type Question	5	3	Internal options will be given in all the questions	15
Total		30		60